

Search in Electric Companies of Bombay

1955. Shri Daji: Will the Minister of Finance be pleased to state:

(a) whether it is a fact that the Enforcement Directorate of the Reserve Bank raided and searched the premises of certain electrical companies in Bombay in April, 1961;

(b) the alleged offence for which the raids were carried out; and

(c) the outcome thereof?

The Minister of Finance (Shri T. T. Krishnamachari): (a) to (c). The premises of certain companies in Bombay dealing in electrical goods were searched by the officers of the Enforcement Directorate of the Ministry of Finance, in April, 1961. Adjudication proceedings were initiated against the said companies by the Enforcement Directorate. The adjudication had not been completed upto the 16th December, 1963.

सेलेनियम मेटल पाउडर पर सीमा शुल्क

१९५६. { श्री राम सेवक यादव :
श्री सनी राम बागड़ी :
श्री यशपाल सिंह :
श्री किशन पटनायक :

क्या वित्तमंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) वास्तविक उपभोक्ता लाइसेंस

प्रणाली लागू होने से पूर्व सेलेनियम मेटल पाउडर और कोबाल्ट आक्साइड के प्रतिष्ठित आयातकारों से प्रति वर्ष सरकार द्वारा कितना सीमा शुल्क वसूल किया जाता था ; और

(ख) वास्तविक उपभोक्ता लाइसेंस प्रणाली के लागू होने के बाद सेलेनियम मेटल पाउडर और कोबाल्ट आक्साइड पर केन्द्रीय सरकार द्वारा कितनी राशि के सीमा शुल्क लगाए जाते हैं और वसूल किए जाते हैं ?

वित्त मंत्री (श्री ति० त० कृष्णमाचारी) :

(क) और (ख). जिन दो चीजों का जिक्र किया गया है उनके बारे में अलग अलग राजस्व सम्बन्धी आंकड़े उपलब्ध नहीं हैं। फिर भी, विदेशों से मंगायें गये माल की (चाहे वह प्रतिष्ठित आयातकों द्वारा मंगायी गया हो या दूसरों द्वारा) कीमत के आधार पर (क) अप्रैल, १९६३ से पहले के तीन वर्षों और (ख) अप्रैल, १९६३ से अगस्त, १९६३ तक के पांच महीनों में मंग्रह हुए शुल्क के लगभग आंकड़े नीचे दिए गये हैं :—

	(अप्रैल १९६०-६१)	(अप्रैल १९६१-६२)	(अप्रैल १९६२-६३)	(अप्रैल १९६३-६४)
				(अगस्त १९६३ तक)

१. सेलेनियम और उस के कम्पाउण्ड	१५६	१०९	१४०	५०
२. कोबाल्ट आक्साइड	११०	१०६	१५०	६३

Hindi Journal for Health Education

1957. Shri Vishwa Nath Pandey: Will the Minister of Health be pleased to state:

(a) whether it is a fact that the Ministry of Health publishes a Hindi Journal for health education;

(b) if so, the number of issues brought out so far; and

(c) the number of persons employed for this purpose and the money spent on this project annually?

The Minister of Health (Dr. Sushila Nayar): (a) to (c). The question regarding the publication of a Hindi Journal for Health Education is still under consideration.